

पारा प्रदूषण और मनिमाता अभिसमय

पारा प्रदूषण और मनिमाता अभिसमय

पारा

- संकेत- Hg; परमाणु संख्या - 80
- प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व (भू-पर्फटी में चट्टानें, कोयले का भंडार),
तंत्रिका, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फैफड़े, गुदे आदि पर विषाक्त प्रभाव।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले शीर्ष दस रसायनों में से एक माना है।

मिथाइल मरकरी बनाम एथिल मरकरी

- मिथाइल मरकरी (MeHg) स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ा है।
- एथिल मरकरी कुछ टीकों में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है।

मनिमाता अभिसमय

उद्देश्य:

- ① मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को Hg और उसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना।
- ② अपने संपूर्ण जीवनचक्र में Hg के मानवजनित निर्गमन को नियंत्रित करना (मुख्य दायित्व)

सहमति:

- ① अंतर-सरकारी वार्ता समिति (5 वाँ सत्र), जिनेवा, स्विट्जरलैंड (वर्ष 2013)

पारा प्रदूषण

स्रोत:

- ① ज्वालामुखी विस्फोट एवं चट्टानों का अपक्षय
- ② कुटीर एवं लघु स्तर पर सोने का खनन (ASGM) (प्रमुख स्रोत)
- ③ औद्योगिक प्रक्रियाएँ (क्रोरीन उत्पादन, सीमेंट निर्माण आदि)
- ④ ई-अपशिष्ट का अनुचित निपटान (फ्लोरोसेंट बल्ब और बैटरी)

प्रभाव:

- ① MeHg जलीय जीवों में एकत्रित हो जाता है (जिसे बाद में मनुष्यों द्वारा उपभोग किया जाता है)
- ② MeHg से मनिमाता रोग (अधिक तंत्रिका संबंधी लक्षण) होने का खतरा अधिक होता है

नियंत्रण:

- ① पारा खनिज
- ② Hg एवं उससे संबंधित उत्पादों का निर्माण/व्यापार
- ③ Hg अपशिष्ट का निपटान
- ④ औद्योगिक सामग्री से Hg का उत्सर्जन

सदस्य:

- ① 144 देश (भारत सहित)
- ② सदस्य देश, उपरोक्त नियंत्रण लागू करने के लिये बाध्य हैं।



[और पढ़ें...](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mercury-pollution-and-the-minamata-convention>

